

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 253] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 7, 1965/आश्विन 15, 1887
No. 253] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 7, 1965/ASVINA 15, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF LAW

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October 1965

S.O. 3160.—In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the vacancy in the Council of States is published for general information:—

DECLARATION

COUNCIL OF STATES

Election to fill casual vacancy

“In pursuance of section 66 of the Representation of the People Act, 1951, I declare that Supakar Shraddhakar, Jharuapada Ward, Sambalpur Municipality, at & P.O. Sambalpur, District Sambalpur, has been duly elected by the elected members of the Orissa Legislative Assembly to fill the vacancy in the Council of States caused by the death of Mahendra Bahadur Raja Sankar Pratap Singh Deo.

PLACE—Assembly Sectt., Bhubaneshwar-1.

DATE—The 27th September, 1965.

Sd/- N. RATH,

Returning Officer”.

[No. F. 5(2)/65-Elec.]

G. A. SHAH, Jt. Secy.

(1017)

